



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2003/माघ 11, 1924

No. 50]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2003/MAGHA 11, 1924

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

( भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 72( अ ).—औपधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ( 1940 का 23 ) की पहली अनुसूची का और संशोधन करने के लिए संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 33क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेदिक, मिट्टा और यूनानी तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बनाता चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप संशोधनों पर उस तारीख में, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीन मास की अवधि के अन्तर्गत के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

ऐसे किन्हीं आक्षेप या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप संशोधनों के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

औपधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ( 1940 का 23 ) की पहली अनुसूची के शीर्ष "[ ख-यूनानी तिब्ब प्रणाली ] के अधीन,—

( क ) क्रम सं. 13 के सामने प्रविष्टि में "( भाग 1 )" कोष्ठकों, शब्द और अंक का लोप किया जाएगा;

( ख ) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" 14. भारत का यूनानी भेषजकोष । "

[ सं. के-11024/2/2002-डीसीसी ( आईएसएम ) ]

एल. प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— 1-5-1979 तक यथा संशोधित औपधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) के उसे प्रकाशन में अंतर्विष्ट हैं जिसमें औपधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियम ( पी डी जी एच एस-61 ) सम्मिलित हैं तथा जिसमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 648( अ ) तारीख 16-9-2002 द्वारा किया गया है ।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Indian Systems of Medicines and Homocopathy)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2002

**G.S.R. 72(E).**—The following draft of amendments further to amend the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, (23 of 1940), which the Central Government after consultation with the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 33-O of the said Act, is hereby published as required by the said section of the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendments will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department of Indian Systems of Medicine and Homocopathy, Ministry of Health and Family Welfare, Indian Red Cross Society Building, New Delhi-110001.

Any objection or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft amendments within the period specified above will be taken into consideration by the Central government.

In the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) under the heading "B-[Unani Tibb Systems]"—

(a) In the entry against serial number 13, the brackets, word and figures "(Part I)" shall be omitted;

(b) After serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"14. Unani Pharmacopoeia of India."

[No. K. 11024/2/2002-DCC(ISM)]

L. PRASAD, Jt. Secy.

**Foot Note :—**The Drugs and Cosmetics Rules, 1945 as amended upto 1-5-1979 is contained in the publication of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health containing the Drugs and Cosmetics Act, 1940) and the Rules (PDGHS-61) and last amendment vide GSR 648(E) dated 16-9-2002.